



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 17]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2016

फा. सं. 14016/16/2014-यूटीएस-1.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रफुलभाई खोदाभाई पटेल को 29 अगस्त, 2016 से अगले आदेश तक संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव का प्रशासक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

हितेश कुमार एस. मकवाना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2016

F. No. 14016/16/2014-UTS-I.— In exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President is pleased to appoint Shri Prafulbhai Khodabhai Patel, as the Administrator of the Union Territory of Daman & Diu with effect from 29th August, 2016, until further orders.

HITESH KUMAR S. MAKWANA, Jt. Secy.